

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्र.धिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५७३] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर १८, १९६७/अग्रहायण २७, १८८९

No. 573] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 1967/AGRAHAYANA 27, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December 1967

S.O. 4463.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1110, dated the 25th March, 1967 published at pages 783 to 785 of sub-section (ii) of section 3 of Part II of the Gazette of India, Extraordinary dated the 23th March, 1967, at page 784, for “(3) Shri A. S. Gupta, M/s. D. Waldies & Co. Ltd., Gillander House, Netaji Subhas Road, Calcutta-1” in column (2) of the Table against serial No. 1, read “(3) Shri S. Gupta M/s. Waldies Zinc Pigments Ltd., Gillander House, Netaji Subhas Road, Calcutta-1”.

[No. 60(35)/Exp. Insp./67.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

(1855)

